

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-89/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत अभनपुर, जिला-रायपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. अभनपुर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	शीतला मंदिर वार्ड
2	महात्मा गांधी वार्ड
3	रामजानकी वार्ड
4	महंत बजरंग दास वार्ड
5	गुरु घासी दास वार्ड
6	पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7	डॉ० राधाकृष्णन वार्ड
8	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
9	नारायण राव अम्बिलकर वार्ड
10	इन्दिरा गांधी वार्ड
11	मिनीमाता वार्ड
12	डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड
13	स्वामी विवेकानंद वार्ड
14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
15	भगत सिंह वार्ड

अभनपुर नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक -01 शीतला मंदिर वार्ड

- उत्तर - बिरोदा नाला से महाराजबंद तालाब होते हुए शीतला मंदिर तक
 पूर्व - शीतला मंदिर से बेलाही तालाब होते हुए सतनाम भवन तक
 दक्षिण - सतनाम भवन से होते हुए चण्डी सरहद तक
 पश्चिम - चण्डी सरहद से आमनेर सरहद से होते हुए बिरोदा नाला तक

वार्ड क्रमांक 02 - महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर - अधियार खोर तालाब पार होते हुए जितेन्द्र सिन्हा किराना दुकान तक
 पूर्व - जितेन्द्र सिन्हा किराना दुकान से रामजानकी मंदिर होते हुए गुलाब सिंह ठाकुर के घर तक
 दक्षिण - गुलाब सिंह ठाकुर के घर से होते हुए बजरंगबली मंदिर सारखी रोड तक
 पश्चिम - बजरंगबली मंदिर सारखी रोड से गोड़पारा स्कूल होते हुए अधियार खोर तालाब पार तक

वार्ड क्रमांक 03 - रामजानकी वार्ड

- उत्तर - शक्ति चबुतरा क्षीरसागर के घर से होते हुए दीना सिन्हा किराना दुकान तक
 पूर्व - दीना सिन्हा किराना दुकान से होते हुए रेवती यादव के घर तक
 दक्षिण - रेवती यादव के घर से होते हुए सामुदायिक भवन बस्ती तक
 पश्चिम - सामुदायिक भवन बस्ती से होते हुए शक्ति चबुतरा क्षीरसागर के घर तक

वार्ड क्रमांक 04 – महंत बजरंग दास वार्ड

- उत्तर – सुनील लेदेकर घर से पुराना पानी टंकी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पुलिस थाना मोड़ तक
- पूर्व – राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पुलिस थाना मोड़ से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 सारखी मोड़ तक
- दक्षिण – राष्ट्रीय राजमार्ग 30 सारखी मोड़ से होते हुए संजय सोनवानी के घर तक
- पश्चिम – संजय सोनवानी के घर से छात्रावास भवन होते हुए सुनील लेदेकर के घर तक

वार्ड क्रमांक 05 – गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर – छांटा तालाब पार से नया तालाब होते हुए बकतरा सरहद तक
- पूर्व – नया तालाब बकतरा सरहद से होते हुए नक्टा तालाब पार जनिया के घर तक
- दक्षिण – नक्टा तालाब पार जनिया के घर से होते हुए आजाद चौक बस्ती तक
- पश्चिम – आजाद चौक बस्ती से होते हुए छांटा तालाब पार तक

वार्ड क्रमांक 06 – पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर – मौली मंदिर से नक्टा तालाब होते हुए नहर पार तक
- पूर्व – नहर पार से होते हुए शहीद वीरनारायण चौक गौरव पथ तक
- दक्षिण – शहीद वीरनारायण चौक गौरव पथ से होते हुए विक्रम चौक तक
- पश्चिम – विक्रम चौक से होते हुए मौली मंदिर तक

वार्ड क्रमांक 07 – डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

- उत्तर – बी.एस.एन.एल कार्यालय से होते हुए बुधा साहू घर, हनुमान मंदिर तक
- पूर्व – बुधा साहू घर हनुमान मंदिर से होते हुए लक्ष्मी बाई चौक तक
- दक्षिण – लक्ष्मी बाई चौक से देवार पारा होते हुए नहर पार पुल तक
- पश्चिम – नहर पार पुल नहर किनारे से होते हुए बी.एस.एन.एल कार्यालय तक

वार्ड क्रमांक 08 – चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

- उत्तर – बीआरसी भवन, तहसील एवं जनपद कार्यालय होते हुए बिजली आफिस तक
- पूर्व – बिजली आफिस से पुराने जनपद कार्यालय होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 तक
- दक्षिण – राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से गुरुद्वारा होते हुए रामआसरा धीवर के घर बस्ती मोड़ तक
- पश्चिम – रामआसरा धीवर के घर बस्ती मोड़ से होते हुए बीआरसी भवन तक

वार्ड क्रमांक 09 – नारायण राव अम्बिलकर वार्ड

- उत्तर – कृषि मण्डी गेट से होते हुए रेल्वे फाटक तक
- पूर्व – रेल्वे फाटक से उपरपारा रोड से होते हुए दुर्गा मंच उपरपारा तक
- दक्षिण – दुर्गा मंच उपरपारा अमीना बेगम के घर से होते हुए चित्रकूट ढाबा तक
- पश्चिम – चित्रकूट ढाबा से साईं नगर होते हुए कृषि मण्डी गेट तक

वार्ड क्रमांक 10 — इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर — शगुन तालाब पार राधाकृष्ण टंडन के घर घासीदास चौक से होते हुए पुराना रेल्वे कालोनी तक
 पूर्व — पुराना रेल्वे कालोनी से उपरपारा पानी टंकी होते हुए नायकबांधा सरहद तक
 दक्षिण — नायकबांधा सरहद से होते हुए ठेठवार पारा तक
 पश्चिम — ठेठवार पारा से खान पारा होते हुए शगुन तालाब पार राधाकृष्ण टंडन के घर तक

वार्ड क्रमांक 11 — मिनीमाता वार्ड

- उत्तर — बैल गाड़ी परियोजना से गृह निर्माण मंडल होते हुए सिन्हा तालाब छोटे उरला तक
 पूर्व — सिन्हा तालाब छोटे उरला से अडानी प्लाट होते हुए दर्री तालाब पार तक
 दक्षिण — दर्री तालाब पार से नेगी के घर होते हुए मिनीमाता आश्रम तक
 पश्चिम — मिनीमाता आश्रम राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायपुर रोड़ से होते हुए बैल गाड़ी परियोजना तक

वार्ड क्रमांक 12 — डॉ. भीम राव अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर — सतीश जाटव के घर से प्राथ. शाला. उरला होते हुए नवभारत फ्यूज कंपनी तक
 पूर्व — नवभारत फ्यूज कंपनी से बंधवा तालाब होते हुए दुर्गा मंच बड़े उरला तक
 दक्षिण — दुर्गा मंच बड़े उरला से रामखिलावन किराना दुकान होते हुए शिव मंदिर तक
 पश्चिम — शिव मंदिर से होते हुए सतीश जाटव के घर तक

वार्ड क्रमांक 13 — स्वामी विवेकानंद वार्ड

- उत्तर — राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बड़े उरला प्रमोद मिश्रा के घर से होते हुए बड़े उरला गौठान तक
 पूर्व — बड़े उरला गौठान से खुशबु नगर होते हुए श्रीराम राईस मिल तक
 दक्षिण — श्री राम राईस मिल से शिक्षक नगर होते हुए ओरियंटल बैंक तक
 पश्चिम — ओरियंटल बैंक से शास्त्री चौक होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बड़े उरला बस्ती मोड़ तक

वार्ड क्रमांक 14 — लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर — रेल्वे फाटक से गुप्ता खाद भंडार होते हुए बस स्टैंड शास्त्री चौक तक
 पूर्व — बस स्टैंड शास्त्री चौक से राजिम रोड़ होते हुए विनय बाजपेयी घर तक
 दक्षिण — विनय बाजपेयी के घर नायकबांधा सरहद से होते हुए राजेश साहू के घर तक
 पश्चिम — राजेश साहू के घर से होते हुए रेल्वे फाटक तक

वार्ड क्रमांक 15 — भगत सिंह वार्ड

- उत्तर — खपरा फैक्ट्री से होते हुए बकतरा सरहद तक
 पूर्व — बकतरा सरहद से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 अभनपुर से होते हुए राजा गुलाटी के घर तक
 दक्षिण — राजा गुलाटी के घर से राधाकृष्ण मंदिर होते हुए भगत सिंह चौक तक
 पश्चिम — भगत सिंह चौक से छापरिया कालोनी होते हुए खपरा फैक्ट्री तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ-1-89/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-89/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F-1-89/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Abhanpur Distt. Raipur as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Abhanpur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	SHITLA MANDIR WARD
2	MAHATMA GANDHI WARD
3	RAMJANKI WARD
4	MAHANT BAJRANG DAS WARD
5	GURU GHASI DAS WARD
6	Pt. JAWAHAR LAL NEHRU WARD
7	Dr. RADHAKRISHNAN WARD
8	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
9	NARAYAN RAO AMBILKAR WARD
10	INDIRA GANDHI WARD
11	MINIMATA WARD
12	Dr. BHIM RAO AMBEDKAR WARD
13	SWAMI VIVEKANAND WARD
14	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
15	BHAGAT SINGH WARD

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Abhanpur**WARD NO. – 01 SHITALA MANDIR WARD**

- NORTH -** From Biroda nala to Shitala Temple via Mahrajband pond .
- EAST -** From Shitala Temple to Satnam building via Belahi pond.
- SOUTH-** From Satnam building to Chandi border.
- WEST-** From Chandi border to Biroda nala via Amner border .

WARD NO. – 02 MAHATMA GANDHI WARD

- NORTH -** From Andhiyar khor pond bund to Jitendra sinha kirana dukan.
- EAST -** From Jitendra sinha kirana dukan to Gulab singh thakur is house via Ramjanki Temple
- SOUTH-** From Gulab singh thakur is house to bajrangbali Temple, Sarkhi road .
- WEST-** From Bajrangbali Temple, Sarkhi road to Andhiyar khor pond bund via Gondpara school.

WARD NO. – 03 RAMJANKI WARD

- NORTH -** From Shakti chabutara Kshirsagar is house to Dina sinha kirana dukan.
- EAST -** From Dina sinha kirana dukan to Revati yadaw is house.
- SOUTH-** From Revati yadaw is house to Samudayik building at basti.
- WEST-** From Samudayik building at basti to Shakti chabutara kshirsagar is house.

WARD NO. – 04 MAHANT BAJRANG DAS WARD

- NORTH -** From Sunil ledekar is house to N. H. 30 police station turning via old water tank.
- EAST -** From N. H. 30, police station turning to N. H. 30, Sarkhi turning.
- SOUTH-** From N. H. 30, Sarkhi turning to Sanjay sonwani is house.
- WEST-** From Sanjay sonwani is house to Sunil ledekar is house via Hostel building .

WARD NO. – 05 GURU GHASI DAS WARD

- NORTH -** From Chhata pond bund to Naya pond, Baktara border.
- EAST -** From Naya pond, Baktara border to Janiya is house via Nakta pond bund.
- SOUTH-** From Nakta pond bund to Azad chowk, Basti via Janiya is house.
- WEST-** From Azad chowk, Basti to Chhata pond bund.

WARD NO. – 06 Pt. JAWAHAR LAL NEHARU WARD

- NORTH -** From Mouli Temple to Canal bund via Nakta pond.
- EAST-** From Nakta pond Canal bund to Shahid veernarayan chowk gaurav path.
- SOUTH-** From Shahid veernarayan chowk gaurav path to Vikram chowk .
- WEST-** From Vikram chowk to Mouli Temple.

WARD NO. – 07 Dr. RADHAKRISHNAN WARD

- NORTH-** From B.S.N.L. Office to Budha sahu is house, Hanuman temple.
- EAST-** From Budha sahu is house, hanuman Temple to Laxmi bai chowk.
- SOUTH -** From Laxmi bai chowk to canal bund culvert via dewar para.
- WEST -** From Canal bund culvert to B.S.N.L. Office.

WARD NO. – 08 CHANDRASHEKHAR AZAD WARD

- NORTH -** From B.R.C. building, Tahsil & Janpad Office to C.S.E.B.office.
- EAST-** From C.S.E.B.office to N. H. 30 via Old Janpad Office .
- SOUTH-** From N. H. 30 to Ramaasara Dhiwar is house, basti turning via Gurudwara.
- WEST-** From Ramaasara Dhiwar is house, basti turning to B.R.C. buiding .

WARD NO. – 09 NARAYANRAO AMBILKAR WARD

- NORTH-** From Krishi mandi gate to Railway fatak.
- EAST-** From Railway fatak to Durga manch, Uparpara via Uparpara road .
- SOUTH-** From Durga manch, Uparpara to Chitrakut dhaba via Amina begam's house.
- WEST-** From Chitrakut dhaba to Krishi mandi gate via Sai nagar .

WARD NO. – 10 INDIRA GANDHI WARD

- NORTH -** From Shagun pond bund Radhakrisna tandon house to old railway colony via Ghasidas chowk.
- EAST-** From Old railway colony to Nayakbandha border via Uparpara water tank .
- SOUTH-** From Nayakbandha border to Thethwar para.
- WEST-** From Thethwar para to Shagun pond, Radhakrisna Tandon's house via khan para .

WARD NO. – 11 MINIMATA WARD

- NORTH -** From Bail gadi Project to Sinha pond, Chote urla via Housing board colony
- EAST-** From Sinha pond, Chote urla to Darri pond bund via Adani plot .
- SOUTH-** From Darri pond bund to Minimata Aasharam via Negi is house .
- WEST-** From Minimata Aasharam to Bail gadi Project via N.H.30 Raipur road .

WARD NO. – 12 Dr. BHIMRAO AMBEDKAR WARD

- NORTH-** From Satish jataw is house to Navbharat fuse company via Primary school, urla .
- EAST-** From Navbharat fuse company to Durga manch, Bade urla via Bandhawa pond .
- SOUTH-** From Durga manch bade urla to Shiv Temple via Ramkhilawan kirana dukan
- WEST-** From Shiv Temple to Satish jataw is house.

WARD NO. – 13 SWAMI VIVEKANAND WARD

- NORTH-** From N.H.30 bade urla, Pramod mishra is house to Bade urla gothan.
- EAST-** From Bade urla gothan to Shreeram rice mill via Khushbu nagar.
- SOUTH-** From Shreeram rice mill to Oriental bank via Shikshak nagar.
- WEST-** From Oriental bank to N.H.30, bade urla, basti turning via Shastri chowk .

WARD NO. – 14 LAL BAHADUR SHASTRI WARD

- NORTH -** From Railway fatak to Bus stand, Shastri chowk via Gupta khad bhandar.
- EAST-** From Bus stand, shastri chowk to Vinay bajpei house via Rajim road .
- SOUTH-** From Vinay bajpei is house to Rajesh sahu is house via Nayakbandha border
- WEST-** From Rajesh sahu is house to Railway fatak.

WARD NO. – 15 BHAGAT SINGH WARD

- NORTH -** From Khapara factory to Baktara border.
- EAST-** From Baktara Border to Raja gulati is house via N.H.30, Abhanpur.
- SOUTH-** From Raja gulati is house to Bhagat singh chowk via Radhakrishna Temple
- WEST-** From Bhagat singh chowk to Khapara factory vai Chhapariya colony.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.